

46/119

9/21



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

168504



विवरण-पत्र

कैल पत्र का संक्षिप्त विवरण

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. भूमि का प्रकार | : कृषि |
| 2. पटवना | : बिजनीर |
| 3. ग्राम | : फुलफुलर नगर फुलफुलर |
| 4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति का नाम) | : भूमि का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर |
| 5. माफ की इकाई | : हेक्टर |
| 6. विहीन सम्पत्ति का क्षेत्रफल | : 0.0755 हेक्टर |





उत्तर प्रदेश-UTTAR PRADESH

062691



-2-

- | | | |
|------------------------|---|----------------|
| १. नाम का प्रकार | : | पुरुष |
| २. पेशा का फुलनेम | : | नहीं |
| ३. बाल, लम्बाई, आकार | : | नहीं |
| ४. प्रतिकूल की जानकारी | : | रु० 1,67,838/- |
| ५. परिवार | : | रु० 1,30,500/- |
| ६. स्थान | : | रु० 1,30,500/- |



घोषणा

असरा नं० 133

- | | | |
|--------|---|----------------------------|
| पुरुष | : | असरा संख्या-149, 251 व 252 |
| परिवार | : | असरा संख्या-134 व 135 |
| जलद | : | असरा संख्या-137 व 138 |
| वस्ति | : | असरा संख्या-132 |



वि. नं० 133



वि. नं० 133



वि. नं० 133

2-2 5.5.7.4

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु. 1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs. 1000


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8 192509



- 4 -

विज्ञापन विज्ञापन


यह विज्ञापन निम्न (1) राम प्रसाद व (2) राम मल्ल
(3) रामू पुराण २५० सुन्दर निवासिगण- राम मुजफ्फ
नगर बुसवल, पलाना, लहरील व जिला ललामल निम्न अथ
विज्ञापनका यहा गया है. एवम् आता पाल पुन बाली,



५ २ २५ ५५५



५ २ २५ ५५५







५ २ २५ ५५५





062692

निवासी-मिर्जापुर, मिर्जाटी, पोस्ट-नवगांव, जिला-फतेहपुर, 2080
 दिने आगे भेजा कहा गया है, के मल निष्कासित किया गया।

उक्त कि विवेकाग्रण भूमि लसत संख्या-133
 रकबा 0.2618 हेक्टेअर में से 0.0340 हेक्टेअर व अकरा
 संख्या-254 रकबा 0.137 हेक्टेअर में से अपना हिस्सा 0.0415
 हेक्टेअर, इस प्रकार कुल दो किला व कुल रकबा 0.0755
 हेक्टेअर, रियल आय-मुजफ्फर नगर धुरायन, चरगना फिजीर,
 ताहसील व जिला-लखनऊ, के मालिक, कान्मिल व काफिल हैं





- 5 -

गया उसीका सम्बन्धित पदनामिक ताला अतीनी प्रथम लब्ध के अनुसार अतः भूमि विस्तारण के नाम का अन्त दत्तम् राजस्व अभिलेखी के दिनांक 30.12.2004 व 18.10.2006 को हो गया है।
 जल भूमि विस्तार का विस्तार में किया है विस्तार अपना सम्पूर्ण विस्तार अपने गृह शीतल ताला में बिना किसी और अवलम्बी या अन्य के, जल के इस विस्तार गैलन जल विस्तार कर रहा है निम्नलिखित अवलम्बी सम्पूर्ण भूमि का मालिक, कानिप व आवर्तित है एवं वर्तमान ताला में जल भूमि भूमि भूमि है और यह कि विस्तार





20.12.2004


20.12.2004



7-



यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के
 गारों से मुक्त एवं पाक व सत्य है तथा विवेका ने उसे इस विषय
 में पूर्ण कर्तव्य, हिमा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया
 है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या
 सरकारी कार्रवाई के अन्तर्गत विवाद का उत्पन्न विषय नहीं है, न
 ही कर्तव्य इत्यादि है। विवेका के अलावा उपर्युक्त भूमि में किसी अन्य
 व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विवेका को
 उपर्युक्त विषय अन्तर्गत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव





- 8 -


उपरोक्त लक्ष्मण के फलस्वरूप रा० 1,67,838/- (सपचा एक लाख सड़सठ हजार आठ सौ अड़तिस मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त खेता द्वारा विक्रतागण की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार मुगलान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति की विक्रतागण उड़ी स्वीकार करता है, तदनुसार उक्त विक्रतागण उक्त खेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रतागण ने जिसकाशुदा भूमि का नीचे पट कयना खेता को बखशी



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100



सत्यमेव जयते

Rs. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 515245




- 9 -

कटा दिया गया है। अब जयल आराजी पर विवेकागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विवेकागण ने विवेकागण सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए प्रोता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब प्रोता विवेकागण सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व अभोग करेगा। विवेकागण उसमें किसी प्रकार की अड़थक बाधा नहीं डाल सकेगा एवं न ही कोई मांग कर सकेगा। और यदि विवेकागण सम्पत्ति अथवा कोई भाग विवेकागण के



वि. नं. 10/10/1978







वि. नं. 10/10/1978

स्वामित्व में ब्रुटे के काटण या कानूनी अदमन या कानूनी ब्रुटे के काटण ज़ेला या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कर्जे या अधिकार या हवाल से निकल जाये तो ज़ेला उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना सम्पत्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विवेकागण की बल, अथवा सम्पत्ति से जारिये अवालात बसूल कर ले। उस स्थित में विवेकागण एवं उसकी वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि ज़ेला विक्रयशुद्ध सम्पत्ति की दखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विवेकागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विक्रेता के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसकी विवेकागण भुगतान व वहन करेंगे, विवेकागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम मुलाफात नगर घुसवल अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरखिज रेट रु० 13,75,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.0755 हेक्टेयर की मालियत रु० 1,03,812.5 होती है परन्तु विक्रीत भूमि दो खेतों की है, तथा प्रत्येक में 5



मिला से कम है अतः व्यक्त भूमि पर आवासीय दर रु० ११००/- प्रतिवर्गमीटर के हिसाब से विक्रीत सम्पत्ति का कुल बाजार मूल्य रु० ८,३०,५००/- होता है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से कम है इसलिए नियमानुसार बाजार मूल्य पर ही रु० ८३,१००/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए छूट की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा २०० मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि सिन्धी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जलपट्टी मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शाहीद फय से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीतागण एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यव क्रेता द्वारा वहन किया गया है।


लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रीतागण ने क्रेता के पास में लिख दिया ताकि सन्दर्भ रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आये।

परिशिष्ट : विक्रय विक्रयसूद्ध सम्पत्ति का विवरण


असरा संख्या-१३३ एकवा ०.२५१० हेक्टेअर में से ०.०३४० हेक्टेअर व असरा संख्या-२५४ एकवा ०.१३७ हेक्टेअर में से




सि-३१०५५५५



सि-३१०५५५५



सि



सि-३१०५५५५

अपना हिस्सा 0.0415 हेक्टेअर, इस प्रकार कुल 30 किता
व कुल रकबा 0.0755

हेक्टेअर, स्थित-घाम-मुजफ्फर नगर घुसवल, पटाना
मिर्जापुर, ताहसील व जिला-मधनकर, जिसकी चौकड़ी निम्न है।

खसरा नं० 133




पूरुब	: खसरा संख्या-249, 251 व 252
पश्चिम	: खसरा संख्या-134 व 135
उत्तर	: खसरा संख्या-137 व 161
दक्षिण	: खसरा संख्या-132

खसरा नं० 254

पूरुब	: खसरा संख्या-244
पश्चिम	: खसरा संख्या-256
उत्तर	: खसरा संख्या-253
दक्षिण	: खसरा संख्या-255

प्रतिश्रुति : भुगतान विवरण

1. मिर्जा श्री राम प्रसाद को रु० 30,752/- (लपचा तीस हजार सात सौ बावन मात्र) नगद क्रेता से प्राप्त हुए।
2. मिर्जा श्री राम भरत को रु० 30,752/- (लपचा तीस हजार सात सौ बावन मात्र) नगद क्रेता से प्राप्त हुए।
3. मिर्जा श्री रामू को रु० 1,06,334/- (लपचा एक लाख छः हजार तीन सौ पैंतीस मात्र) नगद क्रेता से प्राप्त हुए।



दि २०/०७/२०२०

दि २०/०७/२०२०

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रु0 1,67,898/- (सुमया एक लाख सयसठ हजार आठ सौ अड़तिस मात्र) विक्रेतागण ने प्रस्ताव से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

लखनऊ

दिनांक: 01.11.2006


गवाह


20/11/06
G.S.

2. Mr. A. S. -
2/0 Ram Gulam
9/3/13 Bara Barha
Munirbagh Lucknow.

गवाह


(राम खनेड़ी)
सिविल कोर्ट, लखनऊ





ग. स. सिंह



ग. स. सिंह

विक्रेतागण



ग. स. सिंह

गवाह


(सुखदेव अग्निहर गुप्ता)
एडवोकेट

16 JUL 2004 01053101

43

2400

234

777 444

* * *

1000

64

[illegible]

2000

[illegible]

© 1999 by John Wiley & Sons, Inc.

अमेरिका अमेरिका

३५ विप्लव । १९५५

11/1/2015

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402



After a year

Figure 1

1. **Identify the main topic of the passage.**

Abstract

पुनः प्रविष्टः

100

Land Use: All Buildings

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

सं. ५५५

১৯৮০


निर्देश: प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए।

५५५

पुस्तक की गुणवत्ता

✶ ✶

André Gide, *Le roman expérimental*




एडिटर का पता 1908 की धारा - 32 प्रो के अनुसार देना.

विशाल प्रिन्ट अ


प्रस्तुतकर्ता/विद्यार्थी नाम व पता :- सुभाष शिंदे ३/३ अनार

..... 10/10/2020 10/10/2020 10/10/2020 10/10/2020 10/10/2020

दाएँ हाथ के अंगुलियों से चिह्न :-




हड़िने ताय के अंरुलियों के धिठ :-




प्रस्तुतकर्ता / निर्माण / सेवा के हस्ताक्षर
निर्देशा / सेवा के हस्ताक्षर -

..... 21 January 2012 2012 01 Jan 2012

सारे राष्ट्र के संगठनों के लिए -




दाहिने हाथ के अंगुलियों को मिला :




 Министерство образования и науки Российской Федерации



UNIVERSITY
OF MICHIGAN
(LIBRARY) 4000 N. ZEEB
ANN ARBOR, MICH.



THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

[Handwritten signature]

DATE	1961
BY	LIBRARY
NO.	100
CLASS.	100
SUBJ.	100
CALL NO.	100
DATE	1961
BY	LIBRARY
NO.	100
CLASS.	100
SUBJ.	100
CALL NO.	100

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा - 32 (3) के अनुपालन हेतु,


फिंथर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/दिक्कता नाम व पता : रजि. नं. 1/1908

बायें हाथ के अंगुलिओं के चिन्ह -




दाहिने हाथ के अंगुलिओं के चिन्ह -




प्रस्तुतकर्ता/दिक्कता/मकान के हस्ताक्षर

दिक्कता/मकान नाम व पता : रजि. नं. 1/1908

बायें हाथ के अंगुलिओं के चिन्ह -



दाहिने हाथ के अंगुलिओं के चिन्ह -



दिक्कता/प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

੧

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ

ਸਿੰਗ

Registration No. 9114

Year: 2008


Book No. 1

0101 ਦਸ ਪਾਠ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ



0102 ਦਸ ਪਾਠ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ




0103 ਦਸ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ




1935-36 - 1st year

1. The first part of the book is devoted to the study of the history of the Indian people.

2. The second part of the book is devoted to the study of the present position of the Indian people.

3. The third part of the book is devoted to the study of the future of the Indian people.



001

Registration No. 8174

Year 2005

Roll No. 1


0201

Maths

and

Practical Knowledge

40



2
2

2005
2005

ज.क.वे.प. - न.ज.र.प.


प्रमाण :- सुप्रसन्न भार. सुप्रसन्न विद्यार्थी संख्या-३३

प्रमाण सं. :- ३३३

वि.क.वे.प. :- सुप्रसन्न भार. सुप्रसन्न विद्यार्थी सं. ३३

प्रमाण :- सुप्रसन्न भार. सुप्रसन्न विद्यार्थी सं. ३३

प्रमाण सं. ३३३



आम्र दिनांक 01/11/2006 का

पृष्ठ नं. 1 पृष्ठ नं. 3890

पृष्ठ नं. 389 से 322 पर कुल नं. 9174


(विशेषीकृत दिनांक 1981)

राजेश शर्मा

एन. निदेशन (भवन)

लखनऊ

10/11/2006



BILL

Developer - Astra Pol.
M&A Asset Properties & Infrastructure Ltd,
Y&A's Building, 15, Rana Pratap Marg,
Lucknow-226001

Date: 01.11.2006

Particulars of Land Development Work Done

Rs.47341.00

Items Nos 254 & 135 of Rate Book & Others,
Leveling of Deep Trenches, Provision of Land Use
to Storm Water, Physical Measurement of land use,
Removal of dense Growth of Blue Pea and
Vegetation.

Rs.47341.00

(Rupees Ninety three thousand two hundred forty one only)

Chandra
Sharma
01.11.06
For & on behalf of
M&A Asset Properties & Infrastructure Ltd

Q and A to Charge No - 619408
b.u. ok
7/11
[Signature]

LICENSE FOR THE USE OF NATIONAL HIGHWAY LAND

AGREEMENT TO construct an approach road with necessary provision for drainage, signage and marking to Sudham Hi-Tech City abutting on the Lucknow bypass (Amar Shaheed Path) boundary of.....
.....all Khasra 11th in survey no. of the village Alambau & other in the Taluka of Mohan Lal Ganj of the Lucknow (U.P.) District.

AN AGREEMENT made this.....day of.....Year Two thousandbetween the President of India (hereinafter called the Government which expression shall, unless excluded by or repugnant to the context, include his successors in Office and assigns) of the one part and Ansal Properties and Infrastructure Ltd, 3rd Floor, Y.M.C.A Building 13, Rana Pratap Marg Lucknow 22600, hereinafter called 'the Licensee' / 'the Licensees' (which expression shall, unless excluded by or repugnant to the

*Abhisht Developers
& Builders (P) Ltd.*

Tel : 345 0345, 301345
Fax : 301345
E-mail : info@code-nirx.com

11th Floor, Jal Hind Commercial Centre, B.H. Road, Lucknow-226001

Copyright © 1998

pub #2015.12.0004-1776

To:
Honorable David L. ...
Hon. ...
Hon. ...
Hon. ...
Hon. ...

HILL

[illegible]

Source: The New York Times, 1945-1954.

For the whole sample, the mean age was 39.1 years (SD = 10.3).

Author's address: *Department of Mathematics, University of California, San Diego, 950 University Ave., San Diego, CA 92093, USA*

10/10/10

